

P1-17-6-7

प्रश्नपत्र-1

कोड 7

समय : ३ घंटे

अधिकातम अंक : 183

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य

1. यह मोहब्बत पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसमें मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
  2. प्रश्नपत्र का कोड (CODE) इस प्रष्ठ के ऊपरी दायें कोने और इस पुस्तिका के पिछले प्रष्ठ के दायें कोने पर छाए हैं।
  3. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गई ऑटिकल रिसांस शीट (ओ.आर.एस.) (ORS) का उपयोग करें।
  4. प्रश्नपत्र कोड ओ.आर.एस. के दायें तथा दायें भाग में छापे हुए हैं। सुनिश्चित करें की यह दोनों कोड समरूप हैं तथा ये प्रश्नपत्र पुस्तिका पर छपे कोड के समान हैं। यदि नहीं, तो ओ.आर.एस. को बदलने के लिए निरीक्षक से संपर्क करें।
  5. कच्चे कार्ड के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
  6. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिये गए स्थान में अपना नाम व रोल नंबर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइए।
  7. पूर्वी 9.00 बजे इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच सेवे की इसमें 36 पृष्ठ हैं और सभी 54 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से संपर्क करें।
  8. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।


## ऑस्ट्रिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.)

- दी गयी ओ.आर.एस. (ऊपरी शीट) के साथ परीक्षार्थी की शीट (निचली शीट) संलग्न है। परीक्षार्थी की शीट ओ.आर.एस. कि कार्बन-रहित प्रति है।
  - ओ.आर.एस. पर अनुरूप बुलबुलों (bubbles) को पर्याप्त दबाव डालकर काला करें। ऐसा करने से परीक्षार्थी की शीट पर भी अनुरूप स्थान पर चिह्न लग जाएगा।
  - ओ.आर.एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
  - परीक्षा के समापन पर आपको परीक्षार्थी की शीट ले जाने की अनुमति है।
  - ओ.आर.एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
  - अपना नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केंद्र का कोड ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। रोल नंबर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले की काला करें।

ओ.आर.एस. पर ब्लूलब्लूलों को काला करने की विधि

15. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइंट कलम से काला करें।
  16. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
  17. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
  18. ओ.आर.एस. मशीन-जांच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
  19. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।

कृपया शेष जिद्दशों के लिये इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।



Jan 15, 19

253207

SEA

निरीक्षक के अनुदेशों के जिना महो न तोड़े

SEAL

## भाग I : भौतिकी

### खंड -1 (अधिकतम अंक : 28)


- इस खंड में सात प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प [A], [B], [C] और [D] हैं जिनमें एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. एस. पर सारे सही उत्तर (उत्तरों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला बारें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार पिछे जायेंगे:

|                |  |
|----------------|--|
| पूर्ण अंक : +4 | यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया है।           |
| आंशिक अंक : +1 | प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है। |
| शून्य अंक : 0  | यदि किसी बुलबुले को काला नहीं किया है।   |
| ऋण अंक : -2    | अन्य सभी परिस्थितियों में।   |
- उदाहरण : यदि एक प्रश्न के सारे सही उत्तर विकल्प [A], [C] और [D] हैं, तब इन तीनों के अनुरूप बुलबुलों को काला करने पर +4 अंक मिलेंगे; सिर्फ [A], [D] के अनुरूप बुलबुलों को काला करने पर +2 अंक मिलेंगे; तथा [A] और [B] के अनुरूप बुलबुलों को काला करने पर -2 अंक मिलेंगे क्योंकि एक गलत विकल्प के अनुरूप बुलबुले को भी काला किया गया है।

### रफ कार्य के लिए स्थान

\* 7

Q.1 वृत्ताकार चाप वाले एक गुटके का द्रव्यमान  $M$  है। ये गुटका एक घर्षण शिक्षा मेज पर स्थित है। मेज के सापेक्ष (in a coordinate system fixed to the table) गुटके का शाहिना कोर (right edge)  $x = 0$  पर स्थित है। द्रव्यमान  $m$  वाले एक बिंदु कण (point mass) को वृत्ताकार चाप के उच्चतम बिंदु से विरामावस्था से छोड़ा जाता (released from rest) है। ये बिंदु कण पृथाकार पथ पर नीचे की ओर सरकता है। जब बिंदु कण गुटके से संपर्क विहीन हो जाता है, तब उसकी तात्पर्यिक स्थिति  $x$  और गति  $v$  है। निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है / हैं?



[A] बिंदु कण ( $m$ ) की वन दर  $v = \sqrt{\frac{2gR}{M+m}}$

[B] गुटके ( $M$ ) का वन  $V = -\frac{m}{M} \sqrt{2gR}$  है

[C] बिंदु कण ( $m$ ) का स्थान  $x = -\sqrt{2} \frac{mR}{M+m}$  है

[D] गुटके ( $M$ ) के संहित केंद्र के विस्थापन का  $x$  घटक ( $X$  co-ordinate)  $= \frac{mR}{M+m}$  है

#### रफ कार्य के लिए स्थान

$$m_1 V_1 = m_2 V_2 \quad m_1 V_1 + m_2 V_2$$


$$m_1 V_1 = M V_2$$

$$x = \frac{-mR}{(m+M)}$$

$$x+R = \frac{mR}{(m+M)}$$


$$V_1 = \sqrt{2gR} \quad V_2 = \frac{m}{M} \sqrt{2gR}$$

Q.2 विन्ड में दिखाये गए परिपथ में  $L = 1 \mu\text{H}$ ,  $C = 1 \mu\text{F}$ ,  $R = 1 \text{k}\Omega$  हैं। एक फैखती वोल्टता ( $V = V_0 \sin \omega t$ ) स्रोत से श्रेणी संबंध है। निम्न दो सौनपत्र (सो) कथन सही हैं / हैं?



- \* [A] जब  $\omega \sim 0$  होगी तब परिपथ में बहती धारा शून्य के निकट होगी
- [B] जब  $\omega \gg 10^6 \text{ rad.s}^{-1}$ , परिष्ठ संधारित्र (capacitor) की तरह व्यवहार करता है
- [C] जब विद्युत धारा वोल्टता की समकला में होती है तो वह अवर्ति  $R$  पर निर्भर नहीं करती
- \* [D] जब  $\omega = 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$  होगी तब विद्युत धारा (electric current) वोल्टता की समकला में होगी

Q.3 एक समान रैखिक घनतावाले (uniform mass per unit length) उच्चार्धार डोर के निचले सिरे पर एक गुटका  $M$  लटका हुआ है। डोर का दूसरा सिरा दूँड़ आधार ( $O$ ) से संलग्न है। तरंग-दैर्घ्य  $\lambda_0$  की अनुप्रस्थ तरंग स्पंद (स्पंद 1, pulse 1) विन्दु  $O$  पर उत्पन्न की गई है ये तरंग त्वाद विन्दु  $O$  से विन्दु  $A$  तक  $T_{OA}$  समय में पहुँचती है। गुटके  $M$  को बिना विशेषित किये हुए विन्दु  $A$  पर निर्माण की गई तरंग-दैर्घ्य  $\lambda_0$  की अनुप्रस्थ तरंग स्पंद (स्पंद 2, pulse 2), विन्दु  $A$  से विन्दु  $O$  तक  $T_{AO}$  समय में पहुँचती है। निम्न से कौन सा (सो) कथन सही हैं / हैं?



- $V = \sqrt{(L-x)} g$
- [A] डोर के स्थित विन्दु पर स्पंद 1 (pulse 1) एवं स्पंद 2 (pulse 2) का वेग समान है।
  - [B] डोर के अनुदिश प्रेरित किसी भी स्पंद का वेग उसकी आवृत्ति एवं तरंग-दैर्घ्य पर निर्भर नहीं है।
  - [C] स्पंद 1 (pulse 1) की तरंग-दैर्घ्य विन्दु  $A$  तक पहुँचने में लम्बी हो जाएगी।
  - [D] समय  $T_{AO} = T_{OA}$

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{(L-x)g}$$

$$V = fN$$

$$-\frac{1}{g} \left( 2 \int (L-x)g \right)_0^L = (t)_0^T \quad f = \frac{V}{L} \quad T_{AO} = \int_0^T \frac{dx}{dt} dt = \int_0^T \frac{V}{f} dt = \frac{V}{f} T$$

Q.4 एक सगाट प्लेट (flat plate) अल्प दबाव के गैस (gas at low pressure) में, अपने तल की अप्लिकेशन दिशा में, बाह्य बल  $F$  के प्रभाव में अप्रसरित है। प्लेट की गति  $U$ , गैस आणुओं के ओसत गति  $u$  से बहुत कम है। निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है / हैं?

- [A] प्रतिगामी एवं अनुगामी पृष्ठ के दबाव का अंतर  $UV$  के समानुपाती है
- [B] प्लेट रार्डा शुन्येतर रिश्टर त्वरण (constant non-zero acceleration) से चलती रहेगी
- [C] कुछ समय के बाद बाह्य बल  $F$  और प्रतिरोधक बल संतुलित हो जायेंगे
- [D] प्लेट द्वारा अनुभव हुआ प्रतिरोधक बल  $v$  के समानुपाती है



#### रफ कार्य के लिए स्थान

Q.5 ज्ञानवीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लाभग्र 1 m<sup>2</sup> होता है। भानव शरीर का तापमान परिवेश के तापमान से 10 K अधिक होता है। परिवेश तापमान  $T_0 = 300 \text{ K}$  है, इस परिवेश तापमान के लिए  $\sigma T_0^4 = 460 \text{ Wm}^{-2}$  है। जहाँ  $\sigma$  स्टीफान-बोल्ट्जमान लियतांक (Stefan-Boltzmann constant) है। गिर्म में से कौन सा (से) कथन सही है / हैं?

- [A] पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने (जैसे: सिकुड़ने से) से मानव अपने शरीर से विकिरित उर्जा घटाते हैं एवं अपने शरीर का तापमान अनुरक्षित करते हैं।

[B] मानवीय शरीर के तापमान में आगर सार्थक वृद्धि हो तब प्रकाश चुम्बकीय विकरण स्पैखेट्रम की शिखर तरंग-दैर्घ्य (peak in the electromagnetic spectrum) दीर्घ तरंग-दैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है।

[C] मानवीय शरीर से 1 सेकंड में निकटतम विकिरित उर्जा 60 जूल (60 Joules) है।

[D] परिवेश तापमान अगर  $\Delta T_0$  से घटता है ( $\Delta T_0 \ll T_0$ ) तब मानव के शरीर को तापमान का अनुरक्षण करने के लिए  $\Delta W = 4\sigma T_0^3 \Delta T_0$  अधिक उर्जा विकिरित करनी पड़ती है।

Q.6 एक समद्विबाहु प्रिज्म का प्रिज्म कोण  $A$  है (isosceles prism of angle  $A$ )। इस प्रिज्म का अपवर्तनांक  $\mu$  है। इस प्रिज्म का न्यूटन विचलन कोण (angle of minimum deviation)  $\delta_m = A$  है। जिस में से कौन सा (से) कथन सही है / हैं?


- [A] न्यूनतम विचलन में आपत्ति कोण  $i_1$  एवं प्रथम अपतक तल के अपवर्तक कोण  $r_1 = (i_1/2)$  द्वारा संबंधित है।

[B] प्रिज्म का अवर्तनक  $\mu$  एवं प्रिज्म कोण ( $A$ ),  $A = \frac{1}{2} \cos^{-1}\left(\frac{\mu}{2}\right)$  द्वारा संबंधित है।

[C] जब प्रिज्म का आपतन कोण  $i_1 = A$  है तब प्रिज्म के भीतर प्रकाश किरण प्रिज्म केआधार के समानांतर होगी।

[D] जब पहले तल पर आपतन कोण  $i_1 = \sin^{-1}\left[\sin A \sqrt{4 \cos^2 \frac{A}{2} - 1} - \cos A\right]$  है, तब इस प्रिज्म के लिए द्वितीय तल से निर्गत किरण प्रिज्म के पृष्ठ से स्पर्शी होगी। (tangential to the emergent surface)

Q.7 एक गोलाकार विद्युत-रोधी ताप्र तार (insulated copper wire) को  $A$  एवं  $2A$  पर्ले दो क्षेत्रफलों के बलयों में व्यावरित किया गया है। तारों के अतिक्रमण विद्युतरोधी रहते हैं (जैसा चिन्ह में दर्शाया गया है)। संपूर्ण बलय कार्यक के तल में स्थित है। कार्यक के तल के अभिलङ्घन वाले स्थिर तथा एक समान चुम्बकीय क्षेत्र  $B$  सर्वत्र उपरिख्यत है। दलय अपने सामुदायिक व्यारों से बने आक्ष के परितः समय  $t = 0$  से  $\omega$  कोणीय वै (angular velocity) से धूम्रा शुरू करता है। निन्म में से कौन सा (से) कथन सही है/हैं?



- [A] दोनों बलयों से उत्पन्न अधिकतम कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल (net emf) का आयाम, छोटे बलय में उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के आयाम के बराबर होगा।
- [B] जब बलयों का तल कार्यक के तल से अभिलंब दिशा में होता है तब अभिवाह के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है।
- [C] दोनों बलयों से उत्पन्न कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल (emf induced)  $\cos \omega t$  के समनुपाती है।
- [D] प्रेरित विद्युत वाहक बल (emf induced) बलयों के क्षेत्रफलों के योग के समानुपातिक है।

---

#### रफ कार्य के लिए स्थान

## खंड 2 (अधिकतम अंक : 15)


- इस खंड में पांच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जायेंगे:
 

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| पूर्ण अंक : | +3 | यदि सिंकंफ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है। |
| शून्य अंक : | 0  | अन्य सभी परिस्थितियों में।                              |

Q.8 एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हल्सेक्ट्रॉन  $n_f$  क्वांटम संख्या (quantum number) वाले कक्ष से  $n_i$  क्वांटम संख्या (quantum number) के कक्ष में प्रवेश करता है।  $V_i$  तथा  $V_f$  प्राथमिक एवं अधिक स्थितिज उजाएँ हैं। यदि  $\frac{V_i}{V_f} = 6.25$ , तब  $n_f$  की

(5) न्यूनतम सम्भावी संख्या (smallest possible  $n_f$ ) है।

Q.9 एकवर्ण प्रकाश (monochromatic light) अपवर्तनांक  $n = 1.6$  वाले पाथम में प्रयापी है। यह प्रकाश की चौड़ी (stack of glass layers) पर निम्नलिखित तात्पर्य से  $\theta = 30^\circ$  कोण पर आपतित होता है (जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है)। काँचों के स्तर परस्पर समांतर हैं। काँच के चीती के अपवर्तनांक एकदिव  $n_m = n - m\Delta n$ , क्रम से घट रहे हैं। यहाँ  $m$  स्तर का अपवर्तनांक  $n_m$  है और  $\Delta n = 0.1$  है। प्रकाश किरण ( $m-1$ ) एवं  $m$  स्तर के पृष्ठतल से समांतर दिशा में दाईं ओर से बाहर निकलता है। तब  $m$  का मान होगा



रफ कार्य के लिए स्थान

$$\frac{16}{16}, \frac{1}{2} =$$

$$\frac{8}{16} \quad \frac{1}{2}$$

$$\sin \theta = \mu - 1$$


$$m-1$$

$$\mu - \frac{1}{2} = \frac{16 - (m-1)}{16}$$

- Q.10 अणुडीन का समस्थानिक (isotope)  $^{131}\text{I}$ , जिसकी अर्ध-आयु 8 दिन है,  $\beta$ -शंख के कारण जेनोन (Xenon) के समस्थानिक में क्षयित होता है। अल्प मात्रा का  $^{131}\text{I}$  लिबल्ड (labelled) सीरम (serum) मानव शरीर में अन्तःविन (inject) किया गया, जिस मात्रा की अविटवता (activity)  $2.4 \times 10^5$  बेक्रोल (Becquerel) है। यह सीरम लूधिर धारा पर आद्ये घंटे में एक समान वितरित होता है। अगर 11.5 घंटे बाद 2.5 ml रक्त 115 बेक्रोल की अविटवता वर्णता है, तब मानव शरीर में रक्त आयतन (लीटर में) है। (अगर  $e^x \approx 1 + x$  for  $|x| \ll 1$  एवं  $\ln 2 \approx 0.7$  का उपयोग कर सकते हैं)

$$\text{①} = N_0 e^{-\frac{t}{T}} \rightarrow \frac{N_0}{8}$$

रक्त कार्य के लिए स्थान



$$A = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$A = 2.4 \times 10^5 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{8 \times 24} \cdot 12} \quad \left(1 - \frac{1}{K_3}\right)^{\frac{10}{24}}$$

$$P = e^{-\frac{\ln 2}{16}} \quad \text{---}$$

$$P = \frac{2.4 \times 10^5}{2.16} = 600 \quad \text{---}$$

$$P \cdot \frac{24 \cdot 25}{2.16} = 115 \cdot x$$

$$(1 + \frac{7}{160})$$

$$x = \frac{167}{160} \times \frac{24 \times 25}{48 \times 26} \cdot 23$$

10/36

$$400 = 1 - \frac{1}{K_3}$$

$$167 \cdot 3$$

$$501 \cdot 7$$

- Q.11 एक स्थिर रेत आवृत्ति  $f_0 = 492 \text{ Hz}$  की ध्वनि उत्सर्जित करता है।  $2 \text{ ms}^{-1}$  के गति से अप्रभान्नो कार से यह ध्वनि परावर्तित होती है। ध्वनि औत परावर्तित संकर्त को प्राप्त कर के मूल रेत पर अध्यारोपित (superpose) करता है। तब परिणामी सिनल की विस्पद-आवृत्ति (beat frequency) है। (ध्वनि की गति  $330 \text{ ms}^{-1}$  है। कार ध्वनि को उत्तरांश प्राप्त हुई आवृत्ति पर परावर्तित करती है।)

6  
492  
83  
 $(\frac{123 \times 4}{83})$

- Q.12 पृष्ठ-तनाव (surface tension)  $S = \frac{0.1}{4\pi} \text{ Nm}^{-1}$  के द्वय के एक बूँद की विभाज्य  $R = 10^{-2} \text{ m}$  है, जिसे  $K$  तमलप बूँदों में विभाजित किया गया है। पृष्ठ-जर्जा का बदलाव  $\Delta U = 10^{-3} \text{ Joules}$  है। यदि  $K = 10^a$  है तब  $\alpha$  का मान होगा,

$$\Delta U = ? \quad \text{रफ कार्य के लिए स्थान}$$

$$f_0 = \frac{1}{41.5} f_{obj} = \frac{10-2}{10} = \frac{328}{330} \cdot f_0$$

$$F_c = 48 \quad \frac{48}{41.5} = \frac{328}{330} (328 \cdot f_0)$$

$$10^3 \cdot 10^3 = \left(\frac{1}{40f_0}\right) \times \left(10^{-4} - R^2\right) \quad \frac{328}{332} f_0 - f_0 = \frac{328}{332} \cdot \frac{123}{492}$$

$$4 \times 10^2 \quad \frac{328}{332} = f_0 \left[ \frac{4}{332} + \frac{123}{492} \right] \quad 83$$

$$66 \quad T. \Delta A \quad 40$$

$$32 \quad \frac{4}{328} \cdot 492 = 6. \quad \frac{\text{N.m}}{10^{-8}} = K \cdot 8^2$$

$$160 \times \frac{24 \times 25}{415} \quad 23 \quad 1.1 \cdot 5.1 \quad \frac{4}{100} = 10^{-4} - \frac{4}{328} \cdot \frac{10^{-4}}{K \cdot 8^2} \quad \frac{10^{-4}}{K \cdot 8^2} = 2$$

$$160 \quad 25 \cdot 32 \quad 23 \quad \frac{4}{23} = 2$$

$$42 \quad 7 \quad \frac{23 \cdot 7}{23 \cdot 7} \quad (24 \times 10^4) \cdot e^{-\frac{24 \times 7 \times 12}{8 \times 24} + \frac{24 \times 80}{10}} = \frac{115 \times 10^4}{23} + 2 \quad 77 + 3.5$$

$$24 \times 10^4$$

$$11/36 \quad 5 \quad 77 + 3.5 \quad n = \frac{120}{10} \times \frac{24 \times 80}{10 + (-7 + 24 \times 80)} = 7$$

### खंड -3 (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में सुमेल प्रकार के छह प्रश्न हैं।
- इस खंड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कालम और 4 पंक्तियाँ हैं)।
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प [A], [B], [C] और [D] हैं जिनमें सिर्फ एक विकल्प सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. स्स. पर सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जायेंगे:  
पूर्ण अंक : +3 यदि सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
ऋण अंक : -1 अच सभी परिस्थियों में।

रफ कार्य के लिए स्थान

नीचे दी गयी टेबल के तीन कालमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.13, Q.14 और Q.15 के उत्तर दीजिये।

एक चार्जयुक्त कण (इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन) असंधिक गति दें रहे मूल विनु ( $x = 0, y = 0, z = 0$ ) पर प्रस्तुत (introduced) होता है। स्थिर तथा एकसमान विद्युत क्षेत्र  $\vec{E}$  एवं चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  सर्वत्र उपस्थित है। कण की गति दें, विद्युत क्षेत्र  $\vec{E}$  तथा चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  निम्न कालमों 1, 2 एवं 3 में क्रमशः दर्शाये गये हैं।  $E_0, B_0$  के मान धनात्मक हैं।

| कालम 1.   | कालम 2                         | कालम 3                       |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| (i) इलेक्ट्रॉन $\vec{v} = 2 \frac{E_0}{B_0} \hat{x}$ से | (ii) $\vec{E} = E_0 \hat{z}$   | (P) $\vec{B} = -B_0 \hat{x}$ |
| (II) इलेक्ट्रॉन $\vec{v} = \frac{E_0}{B_0} \hat{y}$ से  | (iii) $\vec{E} = -E_0 \hat{y}$ | (Q) $\vec{B} = B_0 \hat{x}$  |
| (III) प्रोटोन $\vec{v} = 0$ से                          | (iv) $\vec{E} = -E_0 \hat{x}$  | (R) $\vec{B} = B_0 \hat{y}$  |
| (IV) प्रोटोन $\vec{v} = 2 \frac{E_0}{B_0} \hat{x}$ से   | (v) $\vec{E} = E_0 \hat{x}$    | (S) $\vec{B} = B_0 \hat{z}$  |

Q.13 किस स्थिति में कण अचल गति से सीधी रेखा में चलन करता है?

- [A] (IV) (i) (S)      [B] (III) (ii) (R)      [C] (III) (iii) (P)      [D] (II) (iii) (S)

Q.14 किस स्थिति में कण सीधी रेखा में ऋणात्मक y — अक्ष (negative y — axis) की दिशा में चलेगा?

- [A] (III) (ii) (P)      [B] (III) (ii) (R)      [C] (IV) (ii) (S)      [D] (II) (iii) (Q)


Q.15 किस स्थिति में कण +z-अक्ष अनुदिश कुंडलिती पथ (helical path along positive z-axis) का अनुसरण करेगा?

- [A] (III) (iii) (P)      [B] (II) (ii) (R)      [C] (IV) (ii) (R)      [D] (IV) (i) (S)

रफ कार्य के लिए स्थान





$$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{F} = \frac{q\vec{v} \times \vec{B}}{m}$$



नीचे दी गयी टेबल के तीन कालमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.16, Q.17 और Q.18 के उत्तर दीजिये

एक आदर्श गैस (ideal gas) विभीन्न घूमीय चर्यापात्रिक प्रक्रमों से गुजरता है। यह निम्न कालम 3 में  $P - V$  आरेख द्वारा दर्शाया गया है। केवल स्थिति 1 से स्थिति 2 जानेवाले पथ की ओर ध्यान दें। इस पथपर निकाय पर हुआ कार्य  $W$  है (work done on the system)। यहाँ  $\gamma$  नियत दाव एवं नियत आयतन ऊष्मा-धरिताओं का अनुपात है (ratio of the heat capacities)। गैस के मोलों (moles) की संख्या  $n$  है।

| कालम 1   | कालम 2                                  | कालम 3  |
|--|---|---|
| (I)<br>$W_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{\gamma - 1} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$                            | (i) $R$<br>रासायनिक                     | (P)<br>   |
| (II)<br>$W_{1 \rightarrow 2} = -PV_2 + PV_1$<br><del><math>\cancel{\gamma(V_1 - V_2)}</math></del> | (ii) $S$<br>समआयतनिक<br>(isochoric)     | (Q)<br>  |
| (III)<br>$W_{1 \rightarrow 2} = 0$   | (iii) $P$<br>समदाबीय                    | (R)<br> |
| (IV)<br>$W_{1 \rightarrow 2} = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$                               | (iv) $\delta$<br>रुद्धीय<br>(adiabatic) | (S)<br> |

रफ कार्य के लिए स्थान

Q.16 निम्न दिए विकल्पों में कौन सा संयोजन  $\Delta U = \underline{\Delta Q} - P \Delta V$  प्रक्रिया का अपेक्षित रूप है?

[A] (II) (iv) (R)

[B] (III) (iii) (P)

[C] (II) (iii) (P)

[D] (II) (iii) (S)

Q.17 निम्न विकल्पों में से कौन सा संयोजन आदर्श गैस में ध्वनि की गति की माप के सुशोधन में प्रयुक्त क्रमागतिक प्रक्रिया को सही दर्शाता है?

[A] (I) (iv) (Q)

[B] (III) (iv) (R)

[C] (I) (ii) (Q)

[D] (IV) (ii) (R)

Q.18 निम्न विकल्पों में कौन सा संयोजन सही है?

[A] (IV) (ii) (S)

[B] (III) (ii) (S)

[C] (II) (iv) (R)

[D] (II) (iv) (P)

भाग I | सभासः भौतिकी

रफ कार्य के लिए स्थान

## भाग II: रसायन विज्ञान


### खंड - I (अधिकतम अंक : 28)

- इस खंड में सात प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प [A], [B], [C] और [D] हैं जिनमें एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. एस. पर सारे सही उत्तर (उत्तरों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जायेंगे:

|           |      |  |
|-----------|------|--|
| पूर्ण अंक | : +4 | यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (दिकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है। |
| आंशिक अंक | : +1 | प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है।                             |
| शून्य अंक | : 0  | यदि किसी बुलबुले को काला नहीं किया है।   |
| ऋण अंक    | : -2 | अन्य सभी परिस्थितियों में।   |
- उत्तराहरण : यदि एक प्रश्न के तीरे सही उत्तर विकल्प [A], [C] और [D] हैं, तब इन तीनों के अनुरूप बुलबुलों को काला करने पर +4 अंक मिलेंगे; सिफ़ [A], [D] के अनुरूप बुलबुलों को काला करने पर +2 अंक मिलेंगे; तथा [A] और [B] के अनुरूप बुलबुलों को काला करने पर -2 अंक मिलेंगे किंवित एक गलत विकल्प के अनुरूप बुलबुले को भी काला किया गया है।

रफ कार्य के लिए स्थान

Q.19 L और M द्रवों के मिश्रण द्वारा बनाये एक विलयन में द्रव M के ग्राम-अणुक फ्रैक्शन (mole fraction) के विरुद्ध द्रव L के वाष्प दब तके छिप्र में दिखाया गया है। यहाँ  $x_L$  और  $x_M$ , L और M के क्रमशः ग्राम-अणुक भिन्नों को निरूपित करते हैं। इस निकाय का (के) उपर्युक्त चर्ची कथन है (है)



- [A] बिंदु Z शुद्ध द्रव M के वाष्प दब को निरूपित करता है और जब  $x_L \rightarrow 0$  तो राउल्ट का नियम (Raoult's law) का पालन होता है
- [B] शुद्ध द्रव L में L-L के बीच में और शुद्ध द्रव M में M-M के बीच में अंतरा-अणुक क्रियाएं L-M के बीच में अंतरा-अणुक क्रियाओं से प्रवल हैं जब उन्हें विलयन में भिन्नित किया जाता है
- [C] बिंदु Z शुद्ध द्रव L के वाष्प दब को निरूपित करता है और जब  $x_L \rightarrow 1$  तो राउल्ट का नियम (Raoult's law) का पालन होता है
- [D] बिंदु Z शुद्ध द्रव M के वाष्प दब को निरूपित करता है और  $x_L = 0$  से  $x_L = 1$  तक राउल्ट का नियम (Raoult's law) का पालन होता है

---

#### रफ कार्य के लिए स्थान


Q.20  $\text{HClO}_4$  और  $\text{HClO}$  के बारे में निम्नीका कथन है (छ)

[A]  $\text{HClO}_4$  का संयुक्ती क्षम (conjugate base)  $\text{H}_2\text{O}$  से दुर्बल क्षम है


[B]  $\text{HClO}_4$  और  $\text{HClO}$  दोनों में केंद्रीय परागण संकरित हैं

[C] क्रणायन के अनुनाद स्थिरीकरण (resonance stabilization) के फलस्वरूप  $\text{HClO}_4$ ,  $\text{HClO}$  से अधिक अस्तीय है

[D]  $\text{Cl}_2$  की  $\text{H}_2\text{O}$  के साथ अभिक्रिया होने पर  $\text{HClO}_4$  बनता है



Q.21 निम्नलिखित योगिक का (के) आई. यू. बी. ऐ. सी. (IUPAC) नाम है (छ)




[A] 4-क्लोरो टोलुइन

[B] 4-मैथिलब्लॉक्सो बैंजीन

[C] 1-क्लोरो-4-मैथिल बैंजीन

[D] 1-मैथिल-4-क्लोरोबैंजीन


रफ कार्य के लिए स्थान



Q.22 एक गुलाबी रंग वाले  $MCl_2 \cdot 6H_2O$  (X) और  $NH_4Cl$  के जलीय विलयन में अधिक्य जलीय अमोनिया के मिलाने पर, यादू की उनरितधि में एक अष्टफलकीय संकर (octahedral complex) Y पेता है। जलीय विलयन में संकर Y 1:3 विद्युत अपघटन (electrolyte) की दरह व्यवहार करता है। सामान्य ताप पर अधिक्य HCl के साथ X की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नीले रंग का संकर Z बनता है। X और Z का परिकलित प्रथकरण मात्र चूमकीय आघूर्ण (spin only magnetic moment) 3.87 B.M. है, जबकि Y 8 संकर Y के लिए शून्य है। निम्न में से कौन सा (से) विकल्प सही है (हैं) ?



- (A) ~~X~~ Z एक चतुरफलकीय (tetrahedral) संकर है।  $\text{M}^{2+} = 3e^{-\frac{1}{2}}$
- (B) ~~[B]~~ Y में केन्द्रीय धातु आयन का संकरण (hybridization)  $d^2sp^3$  है।  $\text{M}^{2+} = 3e^{-\frac{1}{2}}$
- (C) Y में सिल्वर नाइट्रोट मिलाने पर सिल्वर नलोराइड के केवल दो समतुल्य मिलते हैं। ~~X~~  $\text{d}^5 \text{s}^2$
- (D) जब  $0^\circ\text{C}$  पर X और Z साम्यावस्था में हैं तो विलयन का रंग गुलाबी है।  $\text{Mn}^{2+}$

Q.23 निम्नलिखित संकलन अभिक्रियाओं (addition reactions) के लिए सही कथन है (हैं) ?



- ~~(A)~~ (M और N) और (O और P) एन्टीओमेरो (enantiomers) के दो युगल हैं।  $\text{anti addy}$
- (B) O और P समरूप अणु हैं।  $\text{d}/\text{l}$
- (C) दोनों अभिक्रियाओं में ब्रोमिनकरण द्वासा संकलन घारा बढ़ता है।  $\text{CoCl}_2 \cdot 6H_2O$
- ~~(D)~~ (M और N) और (O और P) डाइस्टीरिओमेरों (diastereomers) के दो युगल हैं।  $\text{I}_4^{2+}$

रक कार्य के लिए स्थान



Q.24 एक आदर्श गैस को  $(p_1, V_1, T_1)$  से  $(p_2, V_2, T_2)$  तक विभिन्न अवस्थाओं के अधीन कैलाया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन है (छ)

- [A] जब इसे अनुक्रमणीय तरीके से (irreversibly)  $(p_2, V_2)$  से  $(p_1, V_1)$  तक स्थिर दाब  $p_1$  के प्रियद्रव्याया जाता है तो गैस के ऊपर किया गया कार्य अधिकतम होता है
- [B] गैस को आतंरिक उर्जा में बदलाव (i) शून्य है यदि इसे  $T_1 = T_2$  के साथ फैलाव उत्क्रमणीय (reversible) तरीके से किया जाए और (ii) धनात्मक है यदि इसे  $T_1 \neq T_2$  के साथ लट्टोबॉम (adiabatic) परिस्थितियों के अधीन उत्क्रमणीय (reversible) फैलाव किया जाय
- [C] यदि फैलाव मुक्त रूप से किया जाय तो वह साथ-साथ दोनों समतावी (isothermal) एवं लट्टोबॉम (adiabatic) है
- [D] जब  $V_1$  से  $V_2$  तक लट्टोबॉम अवस्था के अधीन इसका उत्क्रमणीय (reversible) फैलाव किया जाय तो गैस द्वारा किया गया कार्य  $V_1$  से  $V_2$  तक समतावी (isothermal) अवस्थाओं के अधीन उत्क्रमणीय कैलाय में किये गए कार्य की तुलना में कम है

Q.25 समूह 17 के तत्वों के  $X_2$  अणुओं का रंग इनके वर्ग में नीचे जाने पर गीले रंग से धीरे-धीरे ढैगनी रंग में बदलता है। यह निम्न में से किसके फलस्वरूप है

- [A] वर्ग में नीचे जाने पर आयनिक उर्जा घटती है
- [B] वर्ग में नीचे जाने पर HOMO-LUMO का अंतर घटता है
- [C] वर्ग में नीचे जाने पर  $\sigma - \sigma^*$  का अंतर घटता है
- [D] सामान्य ताप पर वर्ग में नीचे जाने पर  $X_2$  की भौतिक अवस्था गैस से ठोस में बदलती है


#### रफ कार्य के लिए स्थान

## खंड -2 (अधिकतम अंक : 15)


- इस खंड में पांच प्रश्न हैं।
  - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
  - प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. एस. पर सही पूर्णांक के अनुलङ्घ बुलबुले को काला करें।
  - प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जायेंगे:
- पूर्ण अंक : +3 वहि सिर्फ तहीं उत्तर के अनुलङ्घ बुलबुले को काला किया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Q.26 निम्नलिखित वर्ग (species) में प्रत्येक के नीचे पृष्ठानु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या का योग है।

$[TcBr_6]^{2-}$ ,  $[BrF_2]^+$ ,  $SNF_3$ , and  $[XeF_3]^-$   
(परमाणु संख्या: N = 7, F = 9, S = 16, Br = 35, Te = 52, Xe = 54)




Q.27 एक दुर्बल एककारकीय अम्ल के  $0.0015\text{ M}$  जलीय विलयन की चालकत्व (conductance)  $15\text{ ohm}^{-1}\text{cm}^2$  प्लॉटिनिझेड Pt (platinized Pt) इलेक्ट्रोड वाले चालकता सैल का उत्तर्योग कर के निश्चारित की गयी।  $1\text{ cm}^2$  अनुप्राप्त काट के क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी  $120\text{ cm}$  है। इस विलयन की चालकत्व का मान  $5 \times 10^{-7}\text{ S}$  पाया गया। विलयन का pH 4 है। इस दुर्बल एककारकीय अम्ल की जलीय विलयन में सीमान्त मोलर चालकता (limiting molar conductivity ( $\Lambda^\circ$ )) का मान  $Z \times 10^2\text{ S cm}^{-1}\text{ mol}^{-1}$  है। Z का मान है।



Q.28 निन्नलिखित में से एरोमेटिक योगिक (यामिकों) की संख्या है 2, 6, 10, 14

4



6 Q.29 ~~प्रति प्रति X प्रति प्रति X प्रति प्रति X प्रति~~ में प्रतिचुम्पकीय स्पीशिज (diamagnetic species) की संख्या है (परमाणु संख्या: H = 1, He = 2, Li = 3, Be = 4, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9)

Q.30 एक शुद्ध पदार्थ के एक क्रिस्टलीय ठोस की कल्पक केन्द्रित धन (face-centred cubic) स्तरवना के सूध कोर्सिटिका कोर (cell edge) की लम्बाई 400 pm है। यदि क्रिस्टल के पदार्थ का घनत्व  $8 \text{ g cm}^{-3}$  है, तो क्रिस्टल के 256 g में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या  $N \times 10^{24}$  है। N का मान है

$$N = 400 \times 10^{12}$$

एक कार्य के लिए स्थान

$$\delta = \frac{8 \times 10^{-3}}{10^{-6}}$$

$$\delta = \frac{z \times m}{a^3 \cdot N_A}$$

$$\delta = \frac{4}{6 \times 10^{23}} \cdot \frac{m_w}{6 \times 10^{23} \times 64 \times 10^{30}}$$

$$m_w = 48 \times 16 \times 10^{-7}$$

$$N_A = 6 \times 10^{23} \times \frac{48 \times 16 \times 10^{-7}}{3}$$

$$2 \times 10$$

### खंड -3 (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में सुमेल प्रकार के छह प्रश्न हैं।
- इस खंड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कालम और 4 पंक्तियाँ हैं)।
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प [A], [B], [C] और [D] हैं जिनमें सिर्फ़ एक विकल्प सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. एस. पर सही उत्तर के अनुलेप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जायेंगे:  
पूर्ण अंक : +3 यदि सही विकल्प के अनुलेप बुलबुले को काला किया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

### रफ कार्य के लिए स्थान

नीचे दी गयी टेबल के तीन कालमों में उपलब्ध मूलका का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.31, Q.32 और Q.33 के उत्तर दीजिये।

उत्तरी फलन  $\psi_{n,l,m_l}$  एक गणितीय फलन है जिसका मान इलेक्ट्रॉन के गोलोग्नुवीय निर्देशक  $(r, \theta, \phi)$  पर निर्भर करता है और व्यांटम संख्या  $n, l$  और  $m_l$  से अभिलक्षित होता है। यहाँ  $r$  नूविलअस से दूरी है,  $\theta$  कोलाटिड (colatitude) है, और  $\phi$  एक्सिथ (azimuth) है। टेबल में दिए गये गणितीय फलनों में  $Z$  परमाणु क्रमांक है और  $a_0$  बोर ब्रिज्या (Bohr radius) है।

| कालम 1   | कालम 2  | कालम 3   |
|--|---|--|
| (I) 1s आर्बिटल<br>(orbital)<br>$l = 0 - 1 = 0$                           | (i) $\psi_{n,l,m_l} \propto \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\left(\frac{Zr}{a_0}\right)}$                | (P)  |
| (II) 2s आर्बिटल<br>(orbital)<br>$l = 0 - 1 = 0$                          | (ii) एक त्रिज्यात्मक (radial) नोड<br>$R = \frac{n^2 - l^2 - 1}{2l + 1}$   | (Q) नूविलअस पर प्रायिकता घनत्व<br>(Probability density) $\propto \frac{1}{a_0^3}$  |
| (III) 2p <sub>x</sub> आर्बिटल<br>(orbital)<br>$l = 1 - 1 = 0$            | (iii) $\psi_{n,l,m_l} \propto \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{5}{2}} re^{-\left(\frac{Zr}{2a_0}\right)} \cos\theta$ | (R) नूविलअस पर प्रायिकता घनत्व<br>(Probability density) अधिकतम है  |
| (IV) 3d <sub>x<sup>2</sup></sub> आर्बिटल<br>(orbital)<br>$l = 2 - 1 = 1$ | (iv) xy-संगतल एक नोडीय तल है  | (S) इलेक्ट्रॉन को $n = 2$ अवस्था से $n = 4$ अवस्था तक उत्तेजित करने की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को $n = 2$ अवस्था से $n = 6$ अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो $\frac{27}{32}$ गुना है |

Q.31 He<sup>+</sup> आयन के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से केवल **गलत (INCORRECT)** संयोजन है।

- [A] (I) (iii) (R)      [B] (II) (ii) (Q)      [C] (I) (i) (R)      [D] (I) (i) (S)


Q.32 हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से केवल सही संयोजन है।


- [A] (II) (i) (Q)      [B] (I) (i) (P)      [C] (I) (iv) (R)      [D] (I) (i) (S)

Q.33 कालम 1 में दिए गये आर्बिटल (orbital) के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी भी हाइड्रोजन-समान स्पीशिज (species) के लिए केवल सही संयोजन है।

- [A] (I) (ii) (S)      [B] (IV) (iv) (R)      [C] (II) (ii) (P)      [D] (III) (iii) (P)

रफ कार्य के लिए स्थान





नीचे दी गयी टेबल के तीन कालमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों 34, 35 एवं 36 के उत्तर दीजिये।

कालम 1, 2 और 3 में क्रमशः आर्थिक पदार्थ, अभिक्रिया उत्तरधारा, और अभिक्रियाओं के प्रकार हैं।

| कालम 1                            | कालम 2  | कालम 3   |
|-----------------------------------|---|--|
| (I) टालुइन (Toluene)              | (i) $\text{NaOH}/\text{Br}_2$                                   | (P) संघनन (Condensation) <input checked="" type="checkbox"/>           |
| (II) असिटोफेनॉन (Acetophenone)    | (ii) $\text{Br}_2/\text{h}\nu$                                  | (Q) कार्बोविस्लकरण (Carboxylation) <input checked="" type="checkbox"/> |
| (III) बेन्जल्डहाइड (Benzaldehyde) | (iii) $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}/\text{CH}_3\text{COOK}$ | (R) प्रतिस्थापन (Substitution) <input checked="" type="checkbox"/>     |
| (IV) फेनोल (Phenol)               | (iv) $\text{NaOH}/\text{CO}_2$                                  | (S) हालोफर्म (Haloform) <input checked="" type="checkbox"/>            |

Q.34 निम्नलिखित विकल्पों में से केवल सही संयोजन जिसमें अभिक्रिया मूलक (radical) प्रक्रिया द्वारा करती है, है

- [A] (IV) (i) (Q)      [B] (I) (ii) (R)      [C] (III) (ii) (P)      [D] (II) (iii) (R)


Q.35 निम्नलिखित विकल्पों में से केवल सही संयोजन जो कि दो भिन्न कार्बोविस्लिक अम्ल देता है, है

- [A] (III) (iii) (P)      [B] (IV) (iii) (Q)      [C] (II) (iv) (R)      [D] (I) (i) (S)

Q.36 बन्जोइक अम्ल के संशेषण (synthesis) के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से केवल सही संयोजन है

- [A] (IV) (ii) (P)      [B] (II) (i) (S)      [C] (III) (iv) (R)      [D] (I) (iv) (Q)

आगे II समाप्त: रसायन विज्ञान



### भाग 3: गणित

#### खंड - 1 (अधिकतम अंक : 28)

- इस खंड में सात प्रश्न हैं।
  - प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प [A], [B], [C] और [D] हैं जिनमें एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
  - प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. एस. पर सारे सही उत्तर (उत्तरों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला करें।
  - प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जायेंगे:
- पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया है।  
 आशिक अंक : +1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण:** यदि एक प्रश्न के सारे सही उत्तर विकल्प [A], [C] और [D] हैं, तब इन तीनों के अनुरूप बुलबुलों को काला करने पर +4 अंक मिलेंगे; यदि [A], [D] के अनुरूप बुलबुलों को काला करने पर +2 अंक मिलेंगे; तथा [A] और [B] के अनुरूप बुलबुलों को काला करने पर -2 अंक मिलेंगे व्यापक एक गलत विकल्प के अनुरूप बुलबुले को भी काला किया गया है।

Q.37 माना कि  $a, b, x$  और  $y$  इस प्रकार की वास्तविक संख्याएँ (real numbers) हैं कि  $a - b = 1$  और  $y \neq 0$  हैं। यदि सम्मिश्र संख्या (complex number)  $z = x + iy$ ,  $\operatorname{Im}\left(\frac{az+b}{z+1}\right) = y$  को सन्तुष्ट करती है, तब मिन्न में से कौन सा(सी)  $x$  का(के) सम्मानित मान है(हैं)?

[A]  $-1 - \sqrt{1 - y^2}$

[B]  $1 + \sqrt{1 + y^2}$

[C]  $-1 + \sqrt{1 - y^2}$

[D]  $1 - \sqrt{1 + y^2}$   $\frac{(ay+b) + i(y)}{(x+1) + iy}$

Q.38 माना कि  $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$  एक सतत फलन (continuous function) है। तब मिन्न फलनों में से कौन से फलन(नों) का(के) मान अन्तराल (interval)  $(0, 1)$  के किसी बिन्दु पर शून्य होगा।

[A]  $e^x - \int_0^x f(t) \sin t dt$

[B]  $f(x) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) \sin t dt$

[C]  $x - \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} f(t) \cos t dt$

[D]  $x^2 - f(x)$

रफ कार्य के लिए स्थान

$-f(0)$   $\bullet$   $\int_0^x f(t) dt$

$(\sin t)$

$1 - f(0)$

$1 - f(0) \oplus$

$\frac{1}{2} x^2$

$f(x) > e + 1 - \frac{1}{2} x^2$

$$P(X) = P(Y) = \frac{1}{3}$$

$$\frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{1}{2}$$

$$P(Y|X) = \frac{2}{3} \quad \text{Ans}$$

Q.39 माना कि  $X$  और  $Y$  इस प्रकार की दो घटनायें (events) हैं कि  $P(X) = \frac{1}{3}$ ,  $P(X|Y) = \frac{1}{2}$  और  $P(Y|X) = \frac{2}{3}$  हैं। तब

[A]  $P(Y) = \frac{4}{15}$



[B]  $P(X \cup Y) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{15} + \frac{1}{3} = \frac{7}{15}$

[C]  $P(X'|Y) = \frac{1}{2}$



[D]  $P(X \cap Y) = \frac{1}{5}$

Eg.  $= \text{Ans}$

Q.40 माना कि  $x$  से छोटा या  $x$  के समान संख्ये बड़ा पूर्णांक (integer)  $[x]$  हैं। तब  $f(x) = \cos(\pi(x + [x]))$ , जिसमें से किन बिन्दुओं पर अस्तित्व (discontinuous) हैं?

[A]  $x = 1$

[B]  $x = -1$

[C]  $x = 0$

[D]  $x = 2$

4  
4

Q.41 यदि  $2x - y + 1 = 0$  अतिपरवलय (hyperbola)  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{16} = 1$  की स्पर्शरेखा (tangent) है तो जिसमें से कौन सी

समकोणीय त्रिभुज (right angled triangle) की मुजाहें नहीं हो सकती हैं (हैं)?

A/B/C

[A]  $a, 4, 2$

[B]  $a, 4, 1$

[C]  $2a, 4, 1$  दो लिंगी

[D]  $2a, 8, 1$

32

$\frac{13}{2}, 16, 4$

रक्क कार्य के लिए स्थान

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{y^2}{16} - 1 = 0$$

$$\frac{2x_1}{a^2} - \frac{y_1^2}{16} = 1$$

$$y_1 = -16$$

$f(1) = 1$

$f(1^+) = 1$

$f(1^-) = -1$

$$\frac{x^2}{a^2} = 1 + 16 = 17$$

$$y = \left( \frac{16}{y_1} \cdot \frac{1}{a^2} \right) n - \frac{16}{y_1}$$

-1 -1 ①

$$m^2 = 17 a^2$$

$$-\frac{m_1}{a^2} = 2$$

$f(0) + \int_{-1}^{1^+} f(t) dt + \left[ \text{उपरी } \right] \left[ \text{नीची } \right]$

-1

$$n = \pm \sqrt{17} a.$$

$$\frac{\sqrt{17}}{a} = 2$$

$f(x) = \frac{1}{2}$

$\frac{-2\alpha}{2a}$

0-

$\alpha = \frac{\sqrt{17}}{2}$

$f(0) = 1$

1, 64, 12

$\underline{4}, \underline{1}, \underline{\sqrt{17}}$

$f(0^+) = 1$

$f(0^-) = -2$

27/36

$\text{परिमाण} = 1$

$\text{परिमाण} = 2 \cdot \text{परिमाण} = 2$

\*7

Q.42 निम्न में से कौन सा(से) वास्तविक संख्याओं के  $3 \times 3$  आयुह (matrix) को बाई (square) नहीं कहते?

[A]  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

[B]  $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

[C]  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

[D]  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$


Q.43 यदि परवलय (parabola)  $y^2 = 16x$  की एक जीवा (chord), जो स्पर्शरेखा (tangent) नहीं है, का समीकरण  $2x + y = p$  तथा मध्यबिन्दु (midpoint)  $(h, k)$  है, तो निम्न में से  $p, h, k$  के सम्बन्ध मान हैं (हैं)?

[A]  $p = -1, h = 1, k = -3$

[B]  $p = 2, h = 3, k = -4$

[C]  $p = -2, h = 2, k = -4$

[D]  $p = 5, h = 4, k = -3$



एक कार्य के लिए स्थान

$\Rightarrow (t_1 + t_2) y + 2at_1 t_2 = 0$

$2x + y = p$

$a = 4$

$(at_1^2, 2at_1)$

$m =$

$(4t_1^2, 8t_1)$

~~$t_1^2$~~

$t_1^2, 2at_1,$   
 $at_1^2, 2at_1$

$m: 1$

$\frac{2(t_1^2 + t_2^2)}{h}, \frac{2(t_1 + t_2)}{k}$

$t_1^2, 2at_1,$   
 $at_1^2, 2at_1$

$p = -8t_1 t_2$

$m = \frac{2t_1(t_1 + t_2)}{a(t_1 + t_2)} = \frac{2}{t_1 + t_2}$

$p = -1$

$8t_1 t_2$

$2m + (t_1 + t_2) y + 2at_1 t_2 = 0$

$P = 2$

$t_1 + t_2 = 1$

$= \frac{3\sin x - 8\cos x}{\sin x}$

28/36

$t_1 t_2 = -\frac{1}{4}$

$P = -2a t_1 t_2 = -8t_1 t_2 = \frac{3(\sin x - 8\cos x)}{6\sin x}$

$3 -$

$*7 = 3 - 1$

$$\frac{b}{9} = + \frac{(-4p) + 16}{4} \quad (4x^2 + p^2 - 4xp = 16x) \quad \textcircled{1}$$

$$b = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{p+4}{2} = b$$

$$(4x_1 - 4x_2)$$

### खंड - 2 (अधिकतम अंक : 15)

- इस खंड में पांच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए आओ आर, एस, पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जायेंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि किसी सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

$$y^2 = 16x$$

$$y = (P-2x)^2 - 16x$$

$$4x^2 -$$

$$k = 2(\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})$$

Q.44 माना कि  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  इस प्रकार का अवकलनीय फलन (differentiable function) है कि  $f(0) = 0, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$  एवं  $f'(0) = 1$  है। यदि  $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$  के लिये

$$g(x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}} [f'(t) \cosec t - \cot t \cosec t f(t)] dt$$

है, तब  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) =$

Q.45 अक्षरों A, B, C, D, E, F, G, H, I, J से 10 लन्डाइ के शब्द बनाये जाते हैं। माना कि X इस तरह के उन शब्दों की संख्या है जिनमें किसी भी अक्षर की पुनरावृति नहीं होती है, तथा Y इस तरह के उन शब्दों की संख्या है जिनमें केवल एक अक्षर की पुनरावृति दो बार होती है व किसी अन्य अक्षर की पुनरावृति नहीं होती है। तब  $\frac{Y}{X} =$

AA (B/C)

रफ कार्य के लिए स्थान

$$10c_1 \cdot 10c_2 \cdot \dots \cdot 10c_n$$

$$g \cdot 10^{n-1}$$

$$5(n+2)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[ \frac{f'(t)}{\sin t} - \frac{(6t)f'(t)}{\sin^2 t} \right] dt$$


$$g'(n) = -6t \sin t$$

$$\frac{10 \cdot 10 \cdot 8}{8 \cdot 8 \cdot 10} \quad f'(n) = \frac{6 \sin n}{\sin^2 n}$$

$$f'(n) =$$

$$\frac{n=0}{g(n)}$$

$$g(n)$$



$$\frac{1}{2} a(a+2) = 24$$

$$48 = a^2 + 2a$$

$$a^2 + 2a - 48 = 0$$

⑥

Q.46 एक समकोणीय त्रिभुज (right angled triangle) की भुजायें समात्तर श्रेढ़ी (arithmetic progression) में हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 24 है तब इसकी सभी छोटी भुजाएँ क्या हैं?

⑦

Q.47  $p$  के कितने मानों के लिये वृत्त (circle)  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - p = 0$  एवं निर्देशांक अक्षों (coordinate axes) में केवल तीन बिन्दु उभयनिष्ठ (common) हैं?

$$\frac{-2 \pm \sqrt{4+4p}}{2}$$

$$\frac{-2 \pm 14}{2}$$

$$\frac{12}{2}$$

Q.48 वास्तविक संख्या (real number)  $\alpha$  के लिये, यदि रैखिक समीकरण निकाय (system of linear equations)

①

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = 0$$

के अनन्त हल (infinitely many solutions) हैं, तब  $1 + \alpha + \alpha^2 =$

1, 1, 1

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \alpha^2) - \alpha(\alpha - \alpha^3) + \alpha^2(1) = 0$$

$$1 - \alpha^2 - \alpha^2 + \alpha^4 = 0$$

$$(1 - \alpha^2) - 2\alpha^2 + 1 = 0$$

$$1 + \alpha^2 - 2\alpha^2 + 1 = 0$$

$$\Delta x = \Delta_1$$

$$\Delta y = \Delta_2$$

$$\Delta z = \Delta_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & -1 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$1 + \alpha - \alpha^2 - \alpha^3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ -1 & 1 & \alpha \\ 1 & \alpha & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha^2 \\ \alpha & -1 & \alpha \\ \alpha^2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$(1 - \alpha^2) - \alpha(-1 - \alpha)$$

$$+ \alpha^2(-\alpha - 1) = 0$$

$$1 - \alpha^2 + \alpha + \alpha^2 - \alpha^3 - \alpha^2 = 0$$

$$(\alpha^2 + \alpha^2 - \alpha - 1 = 0)$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} - \textcircled{3} + \textcircled{4}$$

$$1(-1 - \alpha) - 1(\alpha - \alpha^3) + \alpha^2(\alpha + \alpha^2) = 0$$

$$-1 - \alpha - \alpha + \alpha^3 + \alpha^3 + \alpha^4 = 0$$

$$(1 + \alpha^2 + \alpha^3 - \alpha^2 - \alpha^3 - \alpha^4 = 0)$$

$$1 - 2\alpha^2 + 1 = 0$$

$$-2\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$$

$$2\alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0$$

$$\checkmark + \alpha^2 - \alpha - 1 = 0$$


$$-\alpha^2 + \alpha + 1 = 0 \quad *7$$

### खंड -3 (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में सुनेल प्रकार के छह प्रश्न हैं।
  - इस खंड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कालम और 4 चिन्हाएँ हैं)।
  - प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
  - प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प [A], [B], [C] और [D] हैं जिनमें से एक विकल्प सही है।
  - प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक विभिन्न परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जायेंगे:
- पूर्ण अंक : +3 यदि सही विकल्प के अनुसार बुलबुले को काला किया है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
 कम अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

रफ कार्य के लिए स्थान

$$P = \sqrt{2+2^2} + 2\sqrt{2+4}$$




$$P = 0$$

$$y = x$$

$$\sqrt{5+P}$$

$$z = \sqrt{5+P}$$



$$P > 0$$

नीचे दो गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों 49, 50 एवं 51 के उत्तर दीजिये।

कॉलम 1, 2 तथा 3 में प्रश्नाः कॉनिक (conic), कॉनिक पर स्पर्शरेखा (tangent) का समीकरण तथा स्पर्शबिन्दु (point of contact) दिये गये हैं।


| कॉलम 1                                | कॉलम 2                             | कॉलम 3   |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| (I) $x^2 + y^2 = a^2$                 | (i) $my = m^2x + a$                | (P) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ <del><math>m=4\sqrt{3}</math></del> $(8, 16)$                                       |
| (II) $x^2 + a^2y^2 = a^2$             | (ii) $y = mx + a\sqrt{m^2 + 1}$    | (Q) $\left(\frac{-ma}{\sqrt{m^2+1}}, \frac{a}{\sqrt{m^2+1}}\right)$ <del><math>m=-2\sqrt{3}</math></del>                           |
| (III) $y^2 = 4ax$ <del>(i)-(ii)</del> | (iii) $y = mx + \sqrt{a^2m^2 - 1}$ | (R) $\left(\frac{-a^2m}{\sqrt{a^2m^2+1}}, \frac{1}{\sqrt{a^2m^2+1}}\right)$ <del><math>m=\sqrt{3}</math></del> $(2, 16)$           |
| (IV) $x^2 - a^2y^2 = a^2$             | (iv) $y = mx + \sqrt{a^2m^2 + 1}$  | (S) $\left(\frac{-a^2m}{\sqrt{a^2m^2-1}}, \frac{-1}{\sqrt{a^2m^2-1}}\right)$ <del><math>m=\sqrt{3}</math></del> $(2\sqrt{3}, -16)$ |

Q.49 यदि उपयुक्त कॉनिक (कॉलम 1) के स्पर्शबिन्दु  $(8, 16)$  पर स्पर्शरेखा  $y = x + 8$  है, तब निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन है?

- [A] (III) (ii) (Q)    [B] (II) (iv) (R)    [C] (I) (ii) (Q)    [D] (III) (i) (P)

Q.50  $a = \sqrt{2}$  के लिये उपयुक्त कॉनिक (कॉलम 1) पर एक स्पर्शरेखा खींची जाती है जिसका स्पर्शबिन्दु  $(-1, 1)$ , तब निम्न में से कौन सा विकल्प इस स्पर्शरेखा का समीकरण प्राप्त करने का केवल सही संयोजन है?

- [A] (I) (ii) (Q)    [B] (III) (i) (P)  ~~$m=4\sqrt{2}$~~     [C] (II) (ii) (Q)  ~~$m=\frac{2\sqrt{2}}{1}$~~     [D] (I) (i) (P)  ~~$m=\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}$~~
- Q.51 यदि उपयुक्त कॉनिक (कॉलम 1) के बिन्दु  $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$  पर स्पर्शरेखा  $\sqrt{3}x + 2y = 4$  है, तब निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन है?
- [A] (IV) (iii) (S)    [B] (II) (iii) (R)    [C] (II) (iv) (R)  ~~$m=\pm 1$~~     [D] (IV) (iv) (S)  ~~$m=\pm 1$~~



नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों 52, 53 एवं 54 के उत्तर दीजिये।

| माना कि $f(x) = x + \log_e x - x \log_e x$ , $x \in (0, \infty)$ है। |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| कॉलम 1   | कॉलम 2  | कॉलम 3                            |
| (I) $f(x) = 0$ किसी $x \in (1, e^2)$ के लिये                         | (i) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$          | (P) $f(0, 1)$ वर्धमान है          |
| (II) $f'(x) = 0$ किसी $x \in (1, e)$ के लिये                         | (ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$   | (Q) $f$ में $(e, e^2)$ हासमान है  |
| (III) $f'(x) = 0$ किसी $x \in (0, 1)$ के लिये                        | (iii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = -\infty$ | (R) $f'$ में $(0, 1)$ वर्धमान है  |
| (IV) $f''(x) = 0$ किसी $x \in (1, e)$ के लिये                        | (iv) $\lim_{x \rightarrow \infty} f''(x) = 0$       | (S) $f'$ में $(e, e^2)$ हासमान है |

Q.52 निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संदेशन है?

- (A) [A] (I) (P)      (B) (IV) (iv) (S)      (C) (III) (iii) (R)      (D) (II) (ii) (Q)

Q.53 निम्न में से कौन सा विकल्प केवल गलत संयोजन (only INCORRECT combination) है?

- [A] (III) (i) (R)      [B] (I) (iii) (P)      [C] (II) (iii) (P)      [D] (II) (iv) (Q)

Q.54 निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संदेशन है?

- [A] (I) (ii) (R)      [B] (II) (iii) (S)      [C] (III) (iv) (P)      [D] (IV) (i) (S)

$$\frac{3}{4} - 1$$

प्रश्न पत्र समाप्त

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^3}{3} + \dots - x \left( x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \right)$$

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x} - 1/x^2 - \cancel{x} \quad \cancel{x} + \cancel{-x} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots - x \left( x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^3}{3}$$

$$+ x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - x^2 + \frac{x^3}{2}$$

$$+ x^2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - m$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}$$

$$-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$+ x^2$$

# कोड 7

## प्रश्नपत्र का प्रारूप एवं अंकन योजना

20. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।  
 21. प्रत्येक भाग में तीन खंड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

| खंड | प्रश्न का प्रकार            | प्रश्नों की संख्या | वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक  |   |   |  | खंड में अधिकतम अंक        |
|-----|-----------------------------|--------------------|--|---|---|--|---------------------------|
|     |                             |                    | पूर्ण अंक  | आंशिक अंक   | शून्य अंक   | ऋण अंक                                   |                           |
| 1   | एकलया एक से अधिक सही विकल्प | 7                  | +4   | +1  | 0   | -2                                       | 28                        |
|     |                             |                    | यदि सिर्फ़ सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है | प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है | यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है          | यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है | अन्य सभी परिस्थितियों में |
| 2   | एकल अंकीय पूर्णांक (0-9)    | 5                  | +3   | —   | 0   | —  | 15                        |
|     |                             |                    | यदि सिर्फ़ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है   | —   | अन्य सभी परिस्थितियों में                         | —  | —                         |
| 3   | एकल सही विकल्प              | 6                  | +3   | —   | 0   | -1                                       | 18                        |
|     |                             |                    | यदि सिर्फ़ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है  | —   | यदि किसी भी अन्य सभी बुलबुले को काला नहीं किया है | —  | परिस्थितियों में          |

परीक्षार्थी का नाम.....गणेश कुमार.....

रोल नंबर.....2056207.....

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

मैंने परीक्षार्थी के परिचय, नाम और रोल नंबर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ.आर.एस. कोड दोनों समान हैं।

गणेश कुमार

